



सिटी बकाया टैक्स भुगतानों पर ब्याज और जुर्माने 31 दिसम्बर तक स्थगित करके निवासियों और कारोबारियों की मदद कर रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 अक्टूबर, 2020) – कल, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भुगतानों के लिए, सारे ब्याज और जुर्मानों को 31 दिसम्बर तक स्थगित करने की मंजूरी दे दी है।

शुरु में, सिटी ने 19 अगस्त तक, जुर्माने और ब्याज संबंधी शुल्क स्थगित कर दिए थे। इस निर्णय ने हमारे समुदाय में उन बहुत-से लोगों को आर्थिक राहत प्रदान की थी, जो कोविड-19 (COVID-19) महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। 20 अगस्त से 31 दिसम्बर तक, बकाया टैक्स भुगतानों के लिए ब्याज और जुर्माने स्थगित करने से, हमारे निवासियों और कारोबारियों को इस मुश्किल समय में, अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।

प्रॉपर्टी के मालिकों को किसी भी देने योग्य राशि के बारे सूचित करने के लिए, बकाया टैक्स के नोटिस, अक्टूबर में डाक से भेजे जाएंगे।

आज की घोषणा का अर्थ, बकाया टैक्सों का रद्द होना नहीं है। टैक्स देने वालों को, जून में जारी किए गए, उनके फाइनल टैक्स बिल में दी गई टैक्स की पूरी राशि का भुगतान करना आवश्यक है। अगस्त से दिसम्बर के दौरान किसी भी बकाया राशियों पर ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा। उस समय किसी भी बकाया राशि पर लगने वाले और जुर्माने तथा ब्याज से बचने के लिए, 31 दिसम्बर से पहले, सिटी को आवश्यक तौर पर पूरी राशि का भुगतान मिल जाना चाहिए। जिन टैक्स देने वालों को कोविड-19 महामारी के दौरान कोई आर्थिक तंगी नहीं हुई है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे नियत तारीखों तक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना जारी रखें।

फाइनल नियमित किश्त की नियत तारीखें, 23 सितम्बर, 21 अक्टूबर, 18 नवंबर, 2020 हैं। भुगतान विकल्पों के विवरण, सिटी की [वेबसाइट \(website\)](#) पर उपलब्ध हैं।

मासिक प्री-अथॉराइज़्ड भुगतान (पी.टी.पी.), फाइनल टैक्स भुगतान निकालने की प्रक्रियाएं, सितम्बर, अक्टूबर, नवंबर और दिसम्बर में होंगी।

किसी भी पूछताछ के लिए, [इस फार्म का प्रयोग करें \(use this form\)](#)।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के, कोविड-19 को फैलने से रोकने के प्रयासों के बारे में ताज़ा जानकारी के लिए, www.brampton.ca/covid19 पर जाएं।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca